



# SATIN CREDITCARE NETWORK LTD.

Reaching out!

August 10, 2021

**The Manager,**  
**National Stock Exchange of India Ltd.**  
Exchange Plaza, C-1, Block G,  
Bandra Kurla Complex,  
Bandra East, Mumbai-400051  
**Scrip Code: SATIN/ SATINPP1\***

**The Manager**  
**BSE Limited**  
25<sup>th</sup> Floor, P. J Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai – 400001  
**Scrip Code: 539404/ 890149\***

**Subject: Submission of Copies of Published Unaudited Financial Results**

Dear Sir/Madam,

In continuation of our letter dated August 09, 2021, we enclose copies of the Unaudited Consolidated Financial Results for the quarter ended June 30, 2021 published on August 10, 2021 in Business Standard (English and Hindi).

We request you to take the same on records.

Thanking you,

Yours faithfully,  
For **Satin Creditcare Network Limited**

  
(Vipul Sharma)  
**Company Secretary & Compliance Officer**



Encl. as above

**\*Scrip code SATINPP1 and 890149 representing partly paid equity shares of Rs. 10/- each (Rs. 7.50/- paid up) stands suspended effective from Thursday, July 15, 2021.**

**Corporate Office:**  
Plot No. 492, Phase III, Udyog Vihar,  
Gurugram - 122016  
Haryana, India

**Registered Office:**  
5th Floor, Kundan Bhawan,  
Azadpur Commercial Complex,  
Azadpur, New Delhi-110033, India

**CIN** : L65991DL1990PLC041796  
**Landline No** : 124-4715400  
**E-Mail ID** : info@satincreditcare.com  
**Website** : www.satincreditcare.com

FIRST INDIAN PM TO CHAIR UNSC OPEN DEBATE

# PM proposes 5 principles for maritime security ties

PRESS TRUST OF INDIA  
United Nations, 9 August



Chairing a high-level United Nations Security Council open debate, Prime Minister Narendra Modi on Monday put forward five principles, including removing barriers for maritime trade and peaceful settlement of disputes, on the basis of which a global roadmap for maritime security cooperation can be prepared.

In his statement while chairing the debate on "Enhancing Maritime Security — A Case for International Cooperation" via video conferencing, Modi highlighted that maritime routes were being misused for terrorism and piracy. He stressed that the oceans are the world's common heritage and sea routes the lifeline of international trade.

Underlining that the countries' shared maritime heritage is facing many challenges, the prime minister put forward five principles on the basis of which, he said, a global roadmap for maritime security cooperation can be prepared.

"We should remove barriers for legitimate maritime trade. Global prosperity depends on the active flow of maritime trade. Any hindrance in maritime trade

**WE SHOULD REMOVE BARRIERS FOR LEGITIMATE MARITIME TRADE. GLOBAL PROSPERITY DEPENDS ON THE ACTIVE FLOW OF MARITIME TRADE. ANY HINDRANCE IN MARITIME TRADE CAN THREATEN THE GLOBAL ECONOMY"**

NARENDRA MODI  
PRIME MINISTER

can threaten the global economy," Modi said elaborating the first principle.

The second principle, he said, was that the settlement of maritime disputes

should be peaceful and on the basis of international law.

"This is very important for mutual trust and confidence. This is the only way we can ensure global peace and stability," he said. Modi said the third key principle was that the global community should together face natural disasters and maritime threats created by non-State actors.

India has taken several steps to enhance regional cooperation on this subject, he added.

Preserving the maritime environment and maritime resources, and encouraging responsible maritime connectivity were the fourth and fifth principles enunciated by the prime minister.

Modi is the first Indian prime minister to preside over a UN Security Council Open Debate, according to the Prime Minister's Office.

The meeting was being attended by several heads of state and government of member states of the United Nations Security Council (UNSC), and high-level briefers from the UN system and key regional organisations. The open debate was focussed on ways to effectively counter maritime crime and insecurity, and strengthen coordination in the maritime domain.

# Modi announces ₹11,000-cr mission to make India self-sufficient in edible oils

SANJEEB MUKHERJEE & AGENCIES  
New Delhi, 9 August

As India's import dependency on edible oil continues to rise, Prime Minister Narendra Modi on Monday announced a ₹11,000-crore National Edible Oil Mission-Oil Palm to make India self-sufficient in cooking oil, including palm oil.

"The government will ensure that farmers get all the facilities, from quality seeds to technology, under the mis-

sion," Modi said while addressing a virtual event on the occasion of release of an installment of PM-KISAN.

Modi said that while India has become self-sufficient in production of rice, wheat and sugar, it was not enough as the country is dependent on huge imports of edible oils.

The Centre has been running a National Mission on Oilseeds and Oil Palm to boost oilseeds and palm oil production for some years now with

an aim to lower imports.

Sources said the new mission plans to increase oil palm cultivation to 1.1 million hectares by 2025-26 and 1.7-1.8 million hectares by 2029-30.

At present, less than 0.5 million hectares is under Oil Palm cultivation in India domestically, largely in Andhra Pradesh.

To achieve the target, sources said the Centre is looking to enhance financial assistance to farmers to shift towards oil palm cultivation and ensure

remunerative prices for their produce.

India is dependent on imports of edible oil to meet more than 60 per cent of its domestic demand, because of low oilseeds production. It annually imports around 13-15 million tonnes of edible oil of which almost 55-60 per cent is palm oil alone. This is projected to go up to 20 million tonnes by 2030 due to rising disposable incomes and changing food habits.

► FROM PAGE 1

## Tata group...

A domestic electronics industry could unlock \$1 trillion in GDP and create millions of jobs," he said. The Tata group chairman's remarks come at a time when automobile makers across the world are facing a severe shortage of semiconductors, hitting their businesses.

A foray into the semiconductor segment will help the Tata group supply these key components to Tata Motors and Tata Power, apart from other companies across the world. Tata Motors recently announced that its subsidiary Jaguar Land Rover would make a huge loss in the coming quarter due to lack of semiconductors in the UK.

JLR said last month that the semiconductor shortage might worsen and its sales in the July-September quarter were likely to be almost half of what it had planned.

Chandrasekaran also said when it came to environmental sustainability, businesses

needed to have "time-bound goals, not vague and distant targets". It was critical to invest in research and development in future growth sectors such as renewable energy, he added.

## Akasa...

SpiceJet hasn't even started the maintenance work on the 13 aircraft which are grounded since 2018, the sources pointed out. "Boeing is deeply worried about its only customer in the Indian market which is in a bad financial state. In fact, one of the reasons why Indian regulator DGCA hasn't approved the 737 Max aircraft is because SpiceJet hasn't shown any interest to restart operation with the aircraft," a person who is involved in aircraft transactions with Indian airlines said. Recertification of the aircraft would require up to 100 hours of work on each grounded aircraft and SpiceJet may not be keen on that, the person quoted above said. Additionally, the airline hasn't been able to finalise agreements with lessors for sale and leaseback transactions.

## PNB Housing...

"In such cases, the order impugned remains and therefore the next stage would be to carry it in appeal to the Supreme Court," said Somasekhar Sundaresan, an independent legal counsel.

Justice Agarwala held that Sebi had acted against natural justice, and its view that holding the EGM was ultra vires of the company's Articles of Association (AoA) was incorrect. "Adjudicating an issue without giving notice or an opportunity of hearing is otherwise violative of the principles of natural justice in gross violation of Article 14 of the Constitution of India," he observed.

He further added that Sebi had no jurisdiction to issue a direction before the EGM. "The right of the shareholders to accept or reject an agenda is supreme and paramount which cannot be whittled by any executive action of the respondent," said Agarwala. "If the agenda was accepted by the majority of the shareholders as per the provisions of the Companies Act and if that resolution was in violation of the ICDR Regulations, it would have been open for Sebi to step in at that stage and question that resolution, but it was not open to the respondent to preempt the shareholders from passing the resolution."

Justice Joshi, however, concurred with Sebi's actions. "There is no bar in the Sebi Act to pass such orders, though extraordinary in nature. Sebi is mandated to take such decisions as it may find necessary to protect the interests of investors. The decisions are subject to the scrutiny in appeal by this tribunal and thereafter by the Supreme Court."

## Amazon...

"We were privileged to have had a partner we could learn from and lean on. I would like to thank the Catamaran team for this long and fruitful partnership that helped set the direction for e-commerce in India," said Agarwal.

When Prione was formed in 2014, e-commerce was still at a nascent stage in India.

"We are happy that Prione has leveraged the best global practices for e-commerce in India, created jobs, and provid-

ed Indian customers access to a wide selection of products by leveraging technology," said M D Ranganath, president, Catamaran. "As our JV with Amazon reaches the end of its tenure, I reflect on this successful partnership that introduced the power of digitisation and empowered SMBs across big and small towns. We would like to thank Amazon for the partnership that leaves behind a strong legacy of shaping e-commerce in India," he added.

## RBI proposes...

Among several changes in the draft guidelines, the central bank said Indian companies would not be required to take permission for issuing performance or corporate guarantees for their overseas assets if the guarantee was within limits and fulfilled certain conditions. A no-objection certificate from the local lender will be enough for most purposes. The RBI said apart from the equity investment route, an Indian entity could also "lend or invest in any debt instruments issued by a foreign entity or extend non-fund-based commitments to or on behalf of a foreign entity including its step-down subsidiary". Such debt instruments issued by a foreign entity should be duly backed by a loan agreement, and the rate of interest fixed should be on an "arm's length basis". This means that the interest rate should not be fixed based on the amount invested.

If a financial commitment is made by a group company, "any fund-based exposure to or from the Indian entity shall be deducted from the 'net worth' of such group company for computing its financial commitment limit". According to a senior banker, if these rules are made into law, it will open a floodgate of both inbound and outbound foreign direct investment.

"This is a major step towards capital convertibility. If you read it carefully, the RBI is trying to align the outbound overseas direct investment (ODI) rules with inbound foreign direct investment (FDI) rules," the banker said, requesting anonymity. One of the drafts also proposed to introduce a definition of 'strategic sector', which was missing in the earlier FEMA rules.

More on [businessstandard.com](http://businessstandard.com)

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED					
CIN:L65991DL1990PLC041796					
Regd. Office: 5 <sup>th</sup> Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033					
Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India					
Phone: 0124-4715400, Website: <a href="http://www.satincarecreditcare.com">www.satincarecreditcare.com</a> E-mail: <a href="mailto:secretarial@satincarecreditcare.com">secretarial@satincarecreditcare.com</a>					
Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter / Period ended June 30, 2021					
₹ In Lakhs except EPS					
S. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2021	Quarter Ended June 30, 2020	Quarter ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	34,661.71	31,174.16	40,604.17	1,38,017.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	(10,663.81)	1,715.40	5,327.83	(975.39)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(10,663.80)	1,715.40	5,327.83	(975.39)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(8,065.18)	1,276.48	3,781.74	(1,398.22)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10,385.34)	1,821.38	5,643.50	(4,890.39)
6	Equity Share Capital	-	-	-	6,647.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1,41,969.34
8	Earnings Per Share (₹10 each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	(11.97)	2.34	5.61	(2.26)
	2. Diluted:	(11.97)	2.34	5.28	(2.26)
# - Exceptional and/or Extraordinary Items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, Whichever is applicable.					
₹ In Lakhs					
Brief of Standalone Financial Results for the Quarter/ period ended on June 30, 2021					
S. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2021	Quarter Ended June 30, 2020	Quarter ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	32,052.55	29,097.40	37,285.37	1,27,307.52
2	Profit/(Loss) Before Tax	(9,513.96)	1,735.68	5,946.76	(976.28)
3	Profit/(Loss) After Tax	(7,125.42)	1,285.23	4,276.78	(1,355.49)
Notes:					
1. The Company reports Standalone and Consolidated financial results on quarterly basis, pursuant to the requirement under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with circular dated July 05, 2016. The Standalone & Consolidated financial results are available on the website of the Company (i.e. <a href="http://www.satincarecreditcare.com">www.satincarecreditcare.com</a> ) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE- <a href="http://www.nseindia.com">www.nseindia.com</a> and BSE- <a href="http://www.bseindia.com">www.bseindia.com</a> ).					
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone & Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.					
3. Results for Quarter ended on June 30, 2021 are in compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.					
4. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') at their meetings held on August 09, 2021.					
Place: Gurugram Dated: August 09, 2021					
For Satin Creditcare Network Limited (Harvinder Pal Singh) Chairman Cum Managing Director DIN 00333754					

## BS SUDOKU

# 3432

		1		4	2			
	3		9					7
			7			9		4
				7		3	8	
5		7						
4			2		1			
		6	3					9
	1							
	2	5		6				3

SOLUTION TO #3431

1	9	6	4	3	2	8	7	5
7	8	4	6	5	9	3	2	1
3	5	2	1	7	8	9	4	6
5	4	9	2	8	6	1	3	7
2	6	3	7	9	1	4	5	8
8	1	7	5	4	3	6	9	2
9	2	8	3	6	5	7	1	4
6	7	5	9	1	4	2	8	3
4	3	1	8	2	7	5	6	9

Hard  
★★★★  
Solution  
tomorrow

### HOW TO PLAY

Fill in the grid so that every row, every column and every 3x3 box contains the digits 1 to 9



Balaji Telefilms Limited

CIN:L99999MH1994PLC082802

Registered Office: C-13, Balaji House, Dalia Industrial Estate, Opp. Laxmi Industrial Estate, New Link Road, Andheri (W), Mumbai - 400053, Maharashtra.

Website: [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com), Email Id: [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com)  
Tel: +91-022-40698000, Fax: +91-022-40698181/82

### NOTICE OF 27<sup>th</sup> ANNUAL GENERAL MEETING, REMOTE E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 27<sup>th</sup> Annual General Meeting ("AGM") of the Members of the Company will be held on Tuesday, August 31, 2021 at 03:00 p.m. IST through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) in compliance of the applicable provisions of the Companies Act, 2013 and the rules made thereunder, read with General Circulars dated April 08, 2020, April 13, 2020, May 05, 2020 and January 13, 2021 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") along with the Circular dated May 12, 2020 and January 15, 2021 issued by Securities and Exchange Board of India ("SEBI Circulars"). The Registered Office of the Company shall be the deemed venue for this Meeting.

The Notice of AGM and Annual Report for the financial year 2020-21 have been send in electronic mode to the shareholders whose E-mail ids are registered with the Company or the Depository participant(s). The aforesaid documents will also be available on the website of the Company at [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com) and may also be accessed on the website of BSE Limited at [www.bseindia.com](http://www.bseindia.com) and National Stock Exchange of India Ltd at [www.nseindia.com](http://www.nseindia.com) and on the website of NSDL [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com). As per the MCA Circulars and SEBI Circulars, no physical copies of Notice of AGM and Annual Report will be sent to any shareholders.

Pursuant to Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 44 of Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirement) Regulations, 2015, Members are provided with the facility to exercise their right to vote by electronic means on resolutions proposed to be passed at the AGM. Members holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on cut-off date i.e. Tuesday, August 24, 2021 can cast their votes through electronic voting system (remote e-voting) facility provided by NSDL.

The facility for voting through electronic voting system will also be available at the time of AGM and the shareholders attending the AGM who have not casted votes through remote e-voting, will be able to cast their votes at the time of AGM. Members who have voted through remote e-voting shall be eligible to attend the AGM, however, they shall not be eligible to vote at the meeting. Members holding shares in physical form are requested to access the remote e-voting facility provided by the Company through NSDL e-voting system at <https://www.evoting.nsdl.com>.

The procedure for remote e-voting and e-voting during the AGM by the Shareholders holding shares in electronic mode / physical mode is provided in the Notice of AGM.

The remote e-voting facility shall commence on Friday, August 27, 2021 (09.00 a.m. IST) and will end at on Monday, August 30, 2021 (5.00 p.m. IST). The remoting e-voting module shall be disabled for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the Members, the Members shall not be allowed to change it subsequently.

Any person who acquires shares of the Company after the dispatch of AGM Notice and holds shares as on the cut-off date i.e. Tuesday, August 24, 2021, may obtain the login ID and password by sending a request at [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com).

The Results shall be declared on or after the AGM of the Company. The Results declared shall be communicated to BSE Limited and National Stock Exchange of India Ltd. within 2 (two) working days of conclusion of the AGM of the Company. The Results along with the Scrutinizer's Report shall be placed on the Company's website at [www.balajitelefilms.com](http://www.balajitelefilms.com) and on Registrar and Transfer Agent's website at [www.kfintech.com](http://www.kfintech.com).

Pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, August 25, 2021 to Tuesday, August 31, 2021 (both days inclusive).

Members who would like to raise any queries/ questions may send the same from their registered email address mentioning their name, DP ID and Client ID / folio number at Company's email ID [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com) between Tuesday, August 10, 2021 (11:30 a.m. IST) and Friday, August 27, 2021 (05:00 p.m. IST).

In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of [www.evoting.nsdl.com](http://www.evoting.nsdl.com) or call on toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30 or send a request to Ms. Sarita Mote, Assistant Manager, NSDL at [evoting@nsdl.co.in](mailto:evoting@nsdl.co.in) or contact Mr. Sanjay Dwivedi, Group Chief Financial Officer at [investor@balajitelefilms.com](mailto:investor@balajitelefilms.com) or call on +91-022-40698000.

As per the Income Tax Act, 1961, as amended by the Finance Act, 2020, the dividends paid or distributed by a Company after April 01, 2020 shall be taxable in the hands of the Members. The Company shall deduct Tax at Source (TDS) at the time of making the final dividend. Members are requested to submit the documents in accordance with the provisions of the Income Tax Act, 1961 at <https://ris.kfintech.com/form15/>

For Balaji Telefilms Limited

Date: August 09, 2021  
Place: Mumbai

Sd/-  
Shobha Kapoor  
Managing Director

# एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ जारी रहेगी सीसीआई की जांच

पीरजादा अबरार  
बैंगलूर, 9 अगस्त

सर्वोच्च न्यायालय ने आज कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित प्रतिस्पर्धी-रोधी गतिविधियों को लेकर एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की तरफ से शुरू की गई जांच को रोकने से इनकार कर दिया था।

हालांकि अदालत ने फ्लिपकार्ट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. एम सिंघवी के आग्रह पर सीसीआई जांच से जुड़ने का समय चार सप्ताह बढ़ा दिया। विधि प्लेटफॉर्म बार एंड बेंच के मुताबिक अदालत ने कहा, 'हमें दखल देने का कोई आधार नजर नहीं आ रहा है। हालांकि हम जांच में शामिल होने की समयसीमा चार सप्ताह बढ़ाते हैं।' इस मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले को अलग

रखने से इनकार करते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमण ने कहा, 'हम उम्मीद करते हैं कि एमेजॉन और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े संगठन पूछताछ के लिए खुद आगे आएंगे और आप ऐसा नहीं चाहते हैं। आपको पेश होना होगा और जांच की इजाजत देनी होगी।'

वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम और साजन पूवय्या एमेजॉन की तरफ से पेश हुए। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सीसीआई की तरह पेश हुए। मुख्य न्यायाधीश रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत का पीठ ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और एमेजॉन की कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दोनों कंपनियों की सीसीआई जांच के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

पिछले महीने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और नटराज रंगास्वामी के खंडपीठ ने अदालत के एकल

न्यायाधीश के 11 जून के आदेश के खिलाफ ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर आदेश पारित किया था।

विधि विशेषज्ञों ने कहा कि अब एमेजॉन और फ्लिपकार्ट दोनों को सीसीआई की गैर-प्रतिस्पर्धी जांच में सहयोग करना होगा। तकनीकी विधि कंपनी टेकलेजिस एडवोकेट्स एंड सॉलिसिटर्स के प्रबंध साझेदार सलमान वारिस ने कहा, 'यह उनके लिए झटका है क्योंकि उनका कारोबारी मॉडल ऐसा है, जिस पर प्रतिस्पर्धी-रोधी गतिविधियों से संबंधित असर पड़ सकते हैं।' उन्होंने कहा, 'इसके अलावा इससे उन पर अनुपालना का कामकाज बढ़ेगा। अगर जांच उनके खिलाफ रही तो सीसीआई उन पर भारी जुर्माना लगा सकता है।'

विधि विशेषज्ञों ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय का फैसला लंबी अवधि में एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए अनुपालना का बड़ा मुद्दा पैदा कर सकता है।

## शीर्ष अदालत ने आयोग की जांच पर रोक से इनकार कर दिया



कानूनी विशेषज्ञों ने कहा कि अब एमेजॉन और फ्लिपकार्ट को सीसीआई की प्रतिस्पर्धी-रोधी जांच में सहयोग करना होगा और इससे लंबी अवधि में उनके लिए बड़ा अनुपालना मुद्दा पैदा हो सकता है

■ कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित प्रतिस्पर्धी-रोधी गतिविधियों को लेकर एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के खिलाफ सीसीआई की तरफ से शुरू की गई जांच को रोकने से इनकार कर दिया था

■ हालांकि अदालत ने फ्लिपकार्ट की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील डॉ. एम सिंघवी के आग्रह पर सीसीआई जांच से जुड़ने का समय चार सप्ताह बढ़ा दिया

■ मुख्य न्यायाधीश रमण और न्यायमूर्ति सूर्य कांत का पीठ ई-कॉमर्स कंपनियों फ्लिपकार्ट और एमेजॉन की कर्नाटक उच्च न्यायालय के 23 जुलाई के आदेश के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहा था

नहीं लगता कि इससे कुछ बदलेगा क्योंकि अदालत मुश्किल से ही कभी अपने फैसले के खिलाफ जाती है।

हाए पीठ ने कहा, 'इस स्थिति में जांच को किसी भी तरह रद्द नहीं किया जा सकता है...याचियों को सीसीआई की जांच से डरना नहीं चाहिए...अदालत की विचार-

विमर्श के बाद राय है कि याचियों द्वारा दायर याचिकाओं का कोई आधार नहीं है और इन्हें खारिज किया जाना चाहिए।'

एमेजॉन सीसीआई के आदेश के खिलाफ कर्नाटक उच्च न्यायालय गई थी। सीसीआई के इस आदेश में कहा गया था कि एमेजॉन के प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में गैर-प्रतिस्पर्धी जांच के आरोपों की जांच के लिए महानिदेशक (डीजी) स्तर की जांच होनी चाहिए।

सीसीआई को शिकायत करने वाला कारोबारियों का संगठन दिल्ली व्यापार महासंघ (डीवीएम) सीसीआई के जांच के फैसले को सही ठहरा रहा था। डीवीएम ने आरोप लगाया था कि ये प्लेटफॉर्म स्मार्टफोन की ऑनलाइन बिक्री में भारी छूट दे रहे हैं और खुद बिक्रीता चुन रहे हैं। इसके अलावा अन्य उद्यमियों को कारोबार से बाहर करने के लिए अत्यंत कम कीमतों और विशेष साझेदारी के आरोप भी लगाए गए। डीवीएम कारोबारी

संस्था अखिल भारतीय कारोबारी परिषद (कैट) से संबद्ध है। कैट ने सोमवार को सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया था।

कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया और महासंघ प्रवीण खंडेलवाल ने कहा, 'अब सीसीआई के दोनों कंपनियों की जांच का रास्ता साफ हो गया है। यह अहम फैसला है और इससे न्याय मिला है। एमेजॉन और फ्लिपकार्ट के लिए जांच से बचने की कोई गुंजाइश नहीं है।'

उन्होंने कहा, 'हम मांग करते हैं कि वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सीसीआई को गहन जांच का निर्देश दें और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) को एमेजॉन को नोटिस भेजने का निर्देश दें और किसी तरह की हीला-हवाली की तिकड़मों को बर्दाश्त नहीं किया जाए। हम पीयूष गोयल से अपील करते हैं कि बिना किसी देरी के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत ई-कॉमर्स नियमों को लागू किया जाए।'

## दाल व खाद्य तेलों के उत्पादन में बनें आत्मनिर्भर : पीएम

भाषा  
नई दिल्ली, 9 अगस्त

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद भारत पहली बार कृषि निर्यात के मामले में दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है और उसकी पहचान एक कृषि निर्यातक देश की बन रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना की नई किस्त जारी करते हुए प्रधानमंत्री ने देश को दाल और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान किया।

इस अवसर पर उन्होंने खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम मिशन की घोषणा की और इसमें 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि किसानों और सरकार की साझेदारी के कारण आज देश के अन्न भंडार भरे हुए हैं।

उन्होंने कहा, गेहूँ, चावल और चीनी की आत्मनिर्भरता काफ़ी नहीं है। हमें दाल और खाद्य तेल के मामले में आत्मनिर्भर होना होगा। देश के किसान ऐसा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री ने उन दिनों की याद दिलाई और कहा कि एक समय या जब देश में दालों का आयात करना पड़ता था लेकिन उनके एक आह्वान के बाद इस क्षेत्र में स्थिति बदल गई।

उन्होंने कहा, पिछले छह सालों में दाल के उत्पादन में लगभग 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। जो काम हमने दाल के मामले में किया वही संकल्प अब हमें खाद्य तेलों के



नरेंद्र मोदी, प्रधान मंत्री

उत्पादन में लेना है। इसके लिए तेजी से काम करना है ताकि देश इसमें भी आत्मनिर्भर बन सके।

प्रधानमंत्री ने इसके मद्देनजर राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन-ऑयल पाम मिशन की घोषणा करते हुए कहा कि आज भारत कृषि निर्यात के मामले में पहली बार दुनिया के शीर्ष 10 देशों में पहुंचा है और कोरोना काल में देश ने कृषि निर्यात के नए रिकॉर्ड बनाए हैं।

उन्होंने कहा, आज जब भारत की पहचान एक बड़े कृषि निर्यातक देश की बन रही है तब हम खाद्य तेल का अपनी जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहें, यह उचित नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन के माध्यम से खाने के तेल से जुड़े तंत्र पर 11 हजार करोड़ रुपये से अधिक का निवेश किया जाएगा। साथ ही सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर प्रौद्योगिकी

और अन्य सभी सुविधाएं मिलें।

इससे पहले, प्रधानमंत्री ने यहां आयोजित एक कार्यक्रम में पीएम-किसान योजना की नई किस्त जारी करते हुए देश भर के 9.75 करोड़ से अधिक किसानों के खातों में 19,500 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए।

वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में एक क्लिक के माध्यम से लाभार्थियों के खाते में राशि सीधे हस्तांतरित की गई। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, कृषि राज्य मंत्रियों कैलाश चौधरी, शोभा करंदलाजे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

इस अवसर पर तोमर ने कहा कि किसानों की आमदनी दोगुनी करने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि पीएम-किसान योजना इस दिशा में सफल और सार्थक सिद्ध हुई है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने किसान लाभार्थियों से संवाद भी किया।

पीएम-किसान योजना के तहत पात्र लाभार्थी किसान परिवारों को 6000 रुपये प्रति वर्ष का वित्तीय लाभ दिया जाता है और इस वित्तीय लाभ को 2000 रुपए का तीन किस्तों में प्रत्येक चार माह में प्रदान किया जाता है। धनराशि को सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित किया जाता है।

प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत आज से पहले 1.38 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। किसान परिवारों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जा चुकी है।

## मुनाफारवोरी-रोधी प्राधिकरण को मिली चुनौती

इंदिवजल धम्मना  
नई दिल्ली, 9 अगस्त

सबसे सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने राष्ट्रीय मुनाफारवोरी-रोधी प्राधिकरण के एक निर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है। कंपनी ने उच्च न्यायालय में अपनी फ्रैंचाइजी डफ मेकर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ एक मामले में उसे प्रतिवादी बनाए जाने के प्राधिकरण के आदेश के खिलाफ याचिका दायर की है। सबसे सिस्टम्स को देश में सबसे ब्रांड के तहत कारोबार करने का लाइसेंस मिला हुआ है।

कंपनी का पक्ष रखने वाले वकील अभिषेक रस्तोगी ने कहा कि अनुचित मुनाफे की रकम की

गणना विधि तय किए बिना ही प्राधिकरण की स्थापना के संवैधानिक वैधता को भी कंपनी ने चुनौती दी है। सबसे सिस्टम्स सबसे ब्रांड का लाइसेंस आवंटित कर अपना फ्रैंचाइजी कारोबारी चलाती है। कुछ दूसरी कंपनियों ने भी प्राधिकरण स्थापित करने की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाए हैं। यह मामला 15 नवंबर 2017 को जीएसटी घटाए जाने के बाद डफ मेकर्स द्वारा कथित तौर पर अनुचित मुनाफा कमाने से जुड़ा है। प्राधिकरण ने कहा था कि कंपनी ने 78,41,754 करोड़ रुपये का अनुचित मुनाफा कमाया था।

कंपनी ने कहा कि प्राधिकरण और इसकी जांच शाखा ने मनमाने ढंग से कथित मुनाफे की गणना की

थी। वकील कंपनी, प्राधिकरण का तर्क था कि सबसे सिस्टम्स ने अपनी फ्रैंचाइजी का बिल और वस्तुवार आंकड़े उपलब्ध नहीं कराए थे।

सबसे सिस्टम्स ने उच्च न्यायालय को बताया कि उसे उक्त मामले में पक्षकार बनाया जाना न्याय का उल्लंघन है। प्राधिकरण ने कहा था कि सबसे सिस्टम्स ने वे आंकड़े मुहैया नहीं कराए थे जो इसकी फ्रैंचाइजी के लिए रखना जरूरी था। कंपनी ने फ्रैंचाइजी के साथ हुए समझौते का हवाला देते हुए कहा कि वस्तुओं का मूल्य निर्धारण डफ मेकर्स पर छोड़ दिया गया था।

रस्तोगी ने कहा कि अब असल मुद्दा अनुचित मुनाफे की गणना विधि के बिना ही मुनाफारवोरी-रोधी प्रावधान तय करने की

संवैधानिक वैधता का हो गया है। उन्होंने कहा, 'एक बार संवैधानिक वैधता पर निर्णय होने के बाद ही विभिन्न क्षेत्रों के लिए मुनाफा अर्जित करने की निर्धारित सीमा पर चर्चा हो पाएगी।

करीब 51 कंपनियों ने जीएसटी के तहत मुनाफा रोधी प्रावधानों के खिलाफ याचिकाएं दायर की हैं। इनमें सबसे सिस्टम्स, एचयूएल, एबट, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स, सैमसंग, जुबिलिएंट फूड्स, नेस्ले, सैमसंग, सबसे आदि कंपनियां शामिल हैं। उच्च न्यायालय ने इन सभी कंपनियों को याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई शुरू की थी। अब हिसतंबर में इस मामले में सुनवाई होगी।

## दबावग्रस्त बैंकों के जमाकर्ताओं को भी लाभ

निकुंज ओहरी  
नई दिल्ली, 9 अगस्त

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि पंजाब और महाराष्ट्र कोऑपरेटिव (पीएमसी) बैंक, गुरु राधवेन्द्र बैंक जो कि पहले से दबावग्रस्त हैं लेकिन मोहलत (मोर्टोरियम) के अंतर्गत नहीं हैं और जिनके प्रशासक बाहर से बैठकर काम कर रहे हैं, उनके जमाकर्ता भी इससे लाभान्वित होंगे और वे 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक ले सकते हैं।

सीतारमण ने लोकसभा में विधेयक को पेश करते हुए कहा, 'डीआईसीसी विधेयक अभी से प्रभावी है लेकिन पीएमसी बैंक, गुरु राधवेन्द्र बैंक जो कि पहले से दबावग्रस्त हैं लेकिन मोहलत (मोर्टोरियम) के अंतर्गत नहीं हैं और जिनके प्रशासक बाहर से बैठकर काम कर रहे हैं, उनके जमाकर्ता भी इससे लाभान्वित होंगे और वे 90 दिनों के भीतर 5 लाख रुपये तक ले सकते हैं।'

सीतारमण ने कहा कि दबावग्रस्त बैंकों के समाधान में समय लग रहा है और इसके परिणामस्वरूप जमाकर्ताओं को चिकित्सा उपचार सहित अन्य आपात धन के अलावा पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा, 'हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि 90 दिनों के भीतर जमाकर्ताओं को पैसे मिले ताकि जमाकर्ताओं में 98 फीसदी हिस्सेदारी रखने वाले छोटे जमाकर्ताओं को समय पर पैसा मिल सके।'

## आंध्र प्रदेश के बाद अब तमिलनाडु का अलग से कृषि बजट

शाहन जैकब और  
संजीव मुखर्जी  
चेन्नई/नई दिल्ली, 9 अगस्त

तमिलनाडु 14 अगस्त को अलग से कृषि बजट पेश करने जा रहा है। ऐसा करने वाला वह आंध्र प्रदेश के बाद दूसरा राज्य होगा। एक ओर जहां विशेषज्ञों का मानना है कि यह राजनीतिक पहल से ज्यादा कुछ नहीं है, वहीं आंध्र प्रदेश से मिले आंकड़े दिखाते हैं कि इस प्रकार के कदम से वास्तव में कृषि क्षेत्र को बढ़ावा मिला है।

कृषि के लिए अलग से बजट पेश करने की परंपरा 2012-13 में आंध्र प्रदेश ने शुरू की थी। इसका मकसद कृषि क्षेत्र पर केंद्रित दृष्टिकोण से काम करना था। इसे कृषि पर नीति पत्र का नाम दिया गया था। तेलंगाना, राजस्थान और बिहार ने भी इसी तरह की योजना बनाई थी लेकिन विभिन्न कानूनी और तकनीकी कारणों से वे इसे लागू नहीं कर पाए।

तेलंगाना ने विधानसभा निर्देशों के नियम 150 का हवाला देकर अलग से बजट पेश करने की योजना से कदम पीछे खींच लिया था। इस नियम में कहा गया है कि केवल प्रांतियों और व्यय को ही बजट के तौर पर लिया जा सकता है। तेलंगाना का कहना था कि अन्य योजनाएं, कार्यक्रम बिलों के अंदर आते हैं और उन्हें अलग से बजट के तौर पर नहीं लिया जा सकता है।

धीरे धीरे एसोसिएट्स में पार्टनर पुरुषार्थ सिंह से जब इस तरह के कदम की कानूनी वैधता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, 'देश के संविधान के अनुच्छेद 202 में राज्यों को वित्त वर्ष की प्रतियोगी और व्यय का एक अनुमानित वक्तव्य देने में सक्षम बनाया गया है जिसे आम तौर पर बजट या वार्षिक वित्तीय वक्तव्य कहा जाता है। राज्य सूची के विषयों पर नजर डालें तो स्पष्ट होता है कि संविधान में राज्यों को कृषि संबंधी गतिविधियों पर कानून बनाने या उसमें संशोधन करने के लिए विस्तृत शक्तियां दी गई हैं जिसमें अनुमानित राजस्व और व्यय आंकड़ों तक पहुंचने के लिए उस पर केंद्रित कार्यक्रम तैयार करना और कदम उठाना शामिल है।'

## यूपी में धान की रिकॉर्ड बुआई के आसार

बीएस संवाददाता  
लखनऊ, 9 अगस्त

पहले प्री-मॉनसून और फिर बाद में हुई अच्छी बारिश से उत्तर प्रदेश में इस बार धान की रिकॉर्ड बुआई के आसार हैं। प्रदेश सरकार को बीते वर्षों के मुकाबले 10 लाख टन अधिक धान की पैदावार का अनुमान है। योगी सरकार ने इस बार खरीफ सीजन में 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई करने का लक्ष्य तय किया था।

कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि इस खरीफ सीजन में 96.03 लाख हेक्टेयर खेती योग्य जमीन में से 60 लाख हेक्टेयर पर धान की बुआई करने का लक्ष्य तय किया गया था। इसमें से 57.72 लाख हेक्टेयर भूमि पर 4 अगस्त तक धान की बुआई की जा चुकी है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि आगामी 15 अगस्त तक तय लक्ष्य के अनुसार 60 लाख हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हो जाएगी। बीते साल 58.92 लाख हेक्टेयर भूमि पर ही धान की बुआई हो पाई थी।

विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सबसे अधिक

बरेली मंडल में 194.40 हजार हेक्टेयर में धान की बुआई की गई है। कृषि विशेषज्ञों के अनुसार धान के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एक बार फिर से कीर्तिमान गढ़ने जा रहा है। अनुकूल मौसम और बेहतर बारिश की वजह से प्रदेश में बीते साल के मुकाबले इस बार धान की पैदावार अधिक होगी। बीते साल धान की पैदावार 257.04 लाख टन के पार पहुंच गई थी। कहा जा रहा है कि बीते वर्ष के मुकाबले इस बार दस लाख टन अधिक धान का उत्पादन होगा।

मोटे अनाज (च्नार, बाजरा और मक्का) की पैदावार में भी प्रदेश एक नया रिकॉर्ड बना सकता है। धान और मोटे अनाज की रिकॉर्ड पैदावार से केंद्रीय खाद्य बास्केट में उत्तर प्रदेश की भागीदारी और बढ़ेगी। राज्य के 18 मंडलों में से सबसे अधिक धान की बुआई बरेली मंडल में हुई है। बरेली मंडल में 194.40 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हुई है। इसके बाद मुरादाबाद मंडल में 175.50 हजार हेक्टेयर, मेरठ मंडल में 156.01 हजार हेक्टेयर, अलीगढ़ मंडल में 141.40 हजार हेक्टेयर, सहारनपुर मंडल में 73.72 हजार हेक्टेयर और विन्ध्याचल मंडल में 25 हजार हेक्टेयर भूमि पर धान की बुआई हुई है।

## बीएस सूडोकू 4122

परिणाम संख्या 4121

	5		3	1			2
					6	4	
	2	8		6			3
			3	8		2	
6							
	1				6	7	
						2	4
5					4		
3				7			6

7	2	6	4	1	3	5	8	9
3	8	9	5	2	7	4	1	6
1	4	5	6	8	9	2	7	3
9	7	8	2	4	1	3	6	5
6	3	4	8	9	5	1	2	7
5	1	2	3	7	6	9	4	8
2	5	1	9	6	8	7	3	4
8	9	7	1	3	4	6	5	2
4	6	3	7	5	2	8	9	1

कैसे खेलें?

हर, रो, कॉलम और 3 के बाईं 3 के बॉक्स में एक से लेकर नौ तक की संख्या भरी।

मध्यम

★  
★  
★  
★  
☆

SATIN CREDITCARE NETWORK LIMITED					
CIN:L65991DL1990PLC041796					
Regd. Office: 5 <sup>th</sup> Floor, Kundan Bhawan, Azadpur Commercial Complex, Azadpur, Delhi-110033					
Corporate Office: Plot No. 492, Udyog Vihar, Phase-III, Gurugram, Haryana-122016, India					
Phone: 0124-4715400, Website: www.satincare.com E-mail: secretarial@satincare.com					
Extract of Consolidated Unaudited Financial Results for the Quarter / Period ended June 30, 2021					
S. No.	Particulars	(₹ In Lakhs except EPS)			
		Quarter Ended June 30, 2021	Quarter Ended June 30, 2020	Quarter ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from operations	34,661.71	31,174.16	40,604.17	1,38,017.68
2	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items #)	(10,663.61)	1,715.40	5,327.83	(975.39)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(10,663.60)	1,715.40	5,327.83	(975.39)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items #)	(8,065.18)	1,276.48	3,781.74	(1,398.22)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	(10,385.34)	1,821.38	5,643.50	(4,890.39)
6	Equity Share Capital	-	-	-	6,647.12
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year	-	-	-	1,41,969.34
8	Earnings Per Share (₹10 each) (for continuing and discontinued operations)				
	1. Basic:	(11.97)	2.34	5.61	(2.26)
	2. Diluted:	(11.97)	2.34	5.28	(2.26)
# - Exceptional and/or Extraordinary items adjusted in the Statement of Profit & Loss in accordance with Ind-AS Rules/AS Rules, Whichever is applicable.					
Brief of Standalone Financial Results for the Quarter/ period ended on June 30, 2021					
S. No.	Particulars	Quarter Ended June 30, 2021	Quarter Ended June 30, 2020	Quarter ended March 31, 2021	Year Ended March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income	32,052.55	29,097.40	37,285.37	1,27,307.52
2	Profit/(Loss) Before Tax	(9,513.96)	1,735.68	5,946.76	(976.28)
3	Profit/(Loss) After Tax	(7,125.42)	1,285.23	4,276.78	(1,355.49)
Notes:					
1. The Company reports Standalone and Consolidated financial results on quarterly basis, pursuant to the requirement under Regulation 33 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 as amended read with circular dated July 05, 2016. The Standalone & Consolidated financial results are available on the website of the Company (i.e. www.satincare.com) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. NSE-www.nseindia.com and BSE - www.bseindia.com).					
2. The above is an extract of the detailed format of unaudited Standalone & Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.					
3. Results for Quarter ended on June 30, 2021 are in compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs.					
4. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of Satin Creditcare Network Limited ('the Company') at their meetings held on August 09, 2021.					
For Satin Creditcare Network Limited (Harvinder Pal Singh)					
Chairman Cum Managing Director					
DIN 00333754					
Place: Gurugram					
Dated: August 09, 2021					